

Biology MCQ's

1. Identify a set of birds which are similar to each other based on their food habits.

1. Peacock, Parrot, Pigeon

2. Parrot, Crow, Owl

3. Owl, Eagle, Kite

4. Woodpecker, Vulture, Koel

पक्षियों के एक समूह की पहचान करें जो अपने भोजन की आदतों के आधार पर एक दूसरे के समान हैं।

1. मोर, तोता, कबूतर

2. तोता, कौआ, उल्लू

3. उल्लू, चील, पतंग

4. कठफोड़ा, गिद्ध, कोयल

2. Balanoglossus belongs to which of the following phylum of animal kingdom?

1. Hemichordata

2. Arthropoda

3. Echinodermata

4. Mollusca

बालानोग्लोसस पशु साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है?

1. हेमीकोडाटा

2. आर्थ्रोपोडा

3. इचिनोडर्मेटा

4. मोलस्का

3. What are Coliforms?

1. Bacteria found in very cold environments

2. Bacteria present in the digestive tract of animals

3. Bacteria found in sunglasses

4. More than one of the above
कोलीफॉर्म क्या होते हैं?

1. अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया

2. प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया

3. गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया

4. उपर्युक्त में से एक से अधिक

4. दोस्ती में से एक से ज्यादा

4. Identify the set comprising cold blooded organisms.

1. Lizard, Parrot, Dolphin

2. Pigeon, Humans, Lizard

3. Snake, Frog, Cockroach

4. Whale, Frog, Earthworm

ठंडे खून वाले जीवों के समूह की पहचान करें।

1. छिपकली, तोता, डॉल्फिन

2. कबूतर, इंसान, छिपकली

3. साँप, मेंढक, तिलचट्टा

4. व्हेल, मेंढक, केंचुआ

5. Prawns and butterflies belong to the same phylum because of the presence of

1. bilateral symmetry

2. jointed legs

3. antennae

4. segmented body

झींगा और तितलियाँ ----- की उपस्थिति के कारण एक ही संघ से संबंधित हैं।

1. द्विपक्षीय समरूपता

2. जुड़े हुए पैर

3. एंटीना

4. खंडित शरीर

6. Cuttlefish belongs to phylum

1. Echinodermata

2. Mollusca

3. Annelida

4. Pisces

कटलफिश फ़ाइलम ----- से संबंधित है।

1. इचिनोडर्मेटा

2. मोलस्का

3. एनेलिडा

4. मीन

7. Animals of which phylum have jointed legs?

1. Mollusca

2. Nematoda

3. Arthropoda

4. Echinodermata

किस संघ के जंतुओं के पैर जुड़े हुए होते हैं?

1. मोलस्का
2. नेमाटोडा
3. आर्थ्रोपोडा
4. इचिनोडर्मेटा

8. Bacilli are bacteria which are-

1. Comma-shaped
 2. Rod-shaped
 3. Spiral
 4. Spherical
- बेसिली बैक्टीरिया हैं जो हैं-

1. अल्पविराम के आकार का
2. छड़ के आकार का
3. सर्पिल
4. गोलाकार

9. Which of the following has the largest brain in proportion to its body size?

1. Ant
2. Elephant
3. Dolphin
4. Human Being

निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है?

1. चींटी
2. हाथी
3. डॉल्फिन
4. इंसान

10. Which of the following is a cold blooded animal?

1. Whale
2. Eagle
3. Shark
4. Kangaroo

निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे खून वाला जानवर है?

1. व्हेल
2. ईगल
3. शार्क
4. कंगारू

11. Why does the female mosquito suck blood?

1. For spreading Malaria
2. For generating infection
3. To save her own life
4. To reproduce eggs

मादा मच्छर खून क्यों चूसती है?

1. मलेरिया फैलाने के लिए
2. संक्रमण उत्पन्न करने के लिए
3. अपनी जान बचाने के लिए
4. अण्डों का प्रजनन करना

12. Which one of the following is an egg-laying mammal?

1. Mongoose
2. Platypus
3. Whale
4. Mole

निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है?

1. नेवला
2. प्लैटिपस
3. व्हेल
4. तिल

13. Which is NOT an example of one-sided symbiotic relationship?

1. Cattle egrets and cattle
2. A hermit crab and an empty seashells
3. A spider on a tree
4. Tapeworm in host's stomach

कौन-सा एकतरफ़ा सहजीवी संबंध का उदाहरण नहीं है?

1. मवेशी बगुले और मवेशी
2. एक साधु केकड़ा और एक खाली सीपियाँ
3. एक पेड़ पर एक मकड़ी
4. मेज़बान के पेट में फीताकृमि

14. Long bones with air cavities and lungs with air sacs are the features of class

1. Ambhibia
2. Mammalia
3. Reptilia
4. Aves

वायु गुहाओं वाली लंबी हड्डियाँ और वायुकोशों वाले फेफड़े वर्ग की विशेषताएँ हैं

1. अम्बिबिया
2. स्तनधारी
3. सरीसृप
4. अवेस

15. Which class has the largest number of animals?

- a. Fishes
- b. Reptiles
- c. Insects
- d. Mammals

किस वर्ग में पशुओं की संख्या सबसे अधिक है?

- a. मछलियों का वर्ग
- b. सरीसृप
- c. कीड़े
- d. स्तनधारियों

16. Identify the characteristic of acoelomates

- a. Absence of mesoderm
- b. Absence of brain
- c. Coelom that is incompletely lined with a mesoderm
- d. Solid body without a cavity surrounding internal organs

एकोइलोमेट्स की विशेषता को पहचानें

- a. मेसोडर्म की अनुपस्थिति
- b. मस्तिष्क का अभाव
- c. कोइलोम जो मेसोडर्म से अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध होता है
- d. आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर

17. Salamander belongs to the class

- a. Pisces
- b. Aves
- c. Reptiles
- d. Amphibian

सैलामेंडर वर्ग से संबंधित है

- a. मीन राशि
- b. एविस
- c. सरीसृप
- d. उभयचर

18. Which of the following combinations is incorrect?

- a. Nematoda- roundworms, pseudocoelomate
- b. Calcarea- gastrovascular cavity, coelom present
- c. Echinodermata- coelom present, bilateral symmetry
- d. Platyhelminthes- gastrovascular cavity, flatworms, acoelomate

निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है?

- a. नेमाटोडा- राउंडवॉर्म, स्यूडोकोएलोमेट
- b. कैल्केरिया- गैस्ट्रोवास्कुलर गुहा, कोइलोम मौजूद
- c. इचिनोडर्मेटा- सीलोम वर्तमान, द्विपक्षीय समरूपता
- d. प्लैटिहेल्मिन्थेस- गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, प्लैटवर्म, एकोएलोमेट

19. Flame cells are the excretory structures for

- a. Annelida
 - b. Coelenterates
 - c. Platyhelminthes
 - d. Echinodermata
- ज्वाला कोशिकाएँ किसके लिए उत्सर्जन संरचनाएँ हैं?
- a. एनेलिडा
 - b. सहसंयोजक
 - c. पृथुकृमि
 - d. एकीनोडरमेटा

20. Phylum Porifera is classified based on

- a. Branching
- b. Symmetry
- c. Spicules
- d. Reproduction

फाइलम पोरिफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है

- a. शाखाओं में
- b. समरूपता
- c. कंटक
- d. प्रजनन

21. The canal system in sponges develops due to

- a. Porous walls
- b. Gastrovascular system
- c. Reproduction
- d. Folding of inner walls

स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है?

- a. झरझरा दीवारें
- b. जठरवाहिका तंत्र
- c. प्रजनन
- d. भीतरी दीवारों को मोड़ना

22. Select the correct pair

- a. Arthropoda- silver fish
- b. Pisces- jelly fish
- c. Echinodermata- cuttle fish
- d. Mollusca- star fish

सही जोड़ी का चयन करें

- a. आर्थ्रोपोडा- चांदी की मछली
- b. मीन- जेली फिश
- c. इचिनोडर्मेटा- कटल मछली
- d. मोलस्का- तारा मछली

23. Which group does not contain polyp?

- a. Anthozod
- b. Hydrozoa
- c. Scyphozoa
- d. Calcareia

किस समूह में पॉलीप नहीं होता है?

- a. एन्थोज़ोड
- b. हाइड्रोज़ोआ
- c. साइफोजोआ
- d. कैल्केरिया

24. Ascaris is characterized by

- a. Presence of true coelom and metamerism
- b. Presence of true coelom but the absence of metamerism
- c. Absence of true coelom and metamerism
- d. Absence of true coelom but the presence of metamerism

एस्केरिस की विशेषता है

- a. सच्चे कोइलोम और मेटामेरेज़्म की उपस्थिति
- b. सच्चे कोइलोम की उपस्थिति लेकिन मेटामेरेज़्म की अनुपस्थिति
- c. सच्चे कोइलोम और मेटामेरेज़्म की अनुपस्थिति
- d. सच्चे कोइलोम की अनुपस्थिति लेकिन मेटामेरेज़्म की उपस्थिति

25. Cnidaria is characterized by

- a. Tissue level of organization
- b. Nematoblasts
- c. Coelenteron
- d. All

निडारिया की विशेषता है

- a. संगठन का ऊतक स्तर
- b. नेमाटोबलास्ट
- c. सीलेन्टरोन
- d. सभी

26. Periplaneta belongs to which phylum?

- a. Mollusca
- b. Arthropoda
- c. Annelida
- d. Echinodermata

पेरिप्लानेटा किस संघ से संबंधित है?

- a. मोलस्का
- b. आर्थ्रोपोडा
- c. एनेलिडा
- d. एकीनोडरमाटा

27. Which of the following characters is not typical to class Mammalia?

- a. Alveolar lungs
- b. Seven cervical vertebrae
- c. Thecodont dentition
- d. Ten pairs of cranial nerves

निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्तनपायी वर्ग के लिए विशिष्ट नहीं है?

- a. वायुकोशीय फेफड़े
- b. सात ग्रीवा कशेरुक
- c. दकोडॉन्ट डेंटिशन
- d. कपाल तंत्रिकाओं के दस जोड़े

28. Radial symmetry is found in

- a. Coelenterata and Platyhelminthes
- b. Coelenterata and Echinodermata
- c. Arthropoda and Mollusca
- d. Porifera and Coelenterata

रेडियल समरूपता पाई जाती है

- a. सीलेंटेरेटा और प्लेटिहेल्मिन्थेस
- b. सीलेंटेरेटा और इचिनोडर्मेटा
- c. आर्थ्रोपोडा और मोलस्का
- d. पोरिफेरा और सीलेंटेरेटा